

संयुक्त राष्ट्र दविस 2024

प्रलिस के लयि:

संयुक्त राष्ट्र दविस, [द्वतीय वशिव युद्ध](#), [संयुक्त राष्ट्र चार्टर](#), [ECOSOC](#), [संयुक्त राष्ट्र महासभा \(UNGA\)](#), [ICJ](#), [सुरक्षा परषिद](#)

मेन्स के लयि:

संयुक्त राष्ट्र दविस प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को द्वतीय वशिव युद्ध की समाप्तके बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभावी होने की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र दविस प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को [द्वतीय वशिव युद्ध](#) की समाप्तके बाद वर्ष 1945 में [संयुक्त राष्ट्र चार्टर](#) के प्रभावी होने की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- इस दविस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय नकिय के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में [जागरूकता बढ़ाना](#) है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है?

पृष्ठभूमि:

- इस संधिपर 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिसको में अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंत में [हस्ताक्षर](#) कयि गए तथा यह 24 अक्तूबर, 1945 को लागू हुई।
 - भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है और उसने 30 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुसमर्थन कयि था।
- संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ था, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में [प्रथम वशिव युद्ध](#) के बाद [वरसाय की संधि](#) के तहत "अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लयि" की गई थी।

परचिय:

- [संयुक्त राष्ट्र](#) का चार्टर संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। यह [अंतरराष्ट्रीय कानून](#) का एक साधन है, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के लयि यह बाध्यकारी है।
 - इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित कयि गया है, जिसमें सभी देशों के समान अधिकार तथा राष्ट्रों के बीच बल प्रयोग पर प्रतिबंध शामिल हैं।
 - इसके गठन के बाद से इसमें तीन बार - वर्ष 1963, 1965 और 1973 में [संशोधन](#) कयि गया है।

- [महत्त्व](#): संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवीय सहायता प्रदान करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - यह 75 वर्षों से अधिक समय से [अंतरराष्ट्रीय सहयोग](#), [शांति और विकास](#) में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के वभिनिन अंग कौन-कौन से हैं?

- [महासभा](#): [संयुक्त राष्ट्र महासभा \(UNGA\)](#) संगठन का मुख्य नीतिनिर्माण अंग है। सभी सदस्य देशों से मलिकर बनी यह महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा कवर कयि गए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के पूरे स्पेक्ट्रम पर बहुपक्षीय चर्चा के लयि एक अनूठा मंच प्रदान करती है।
 - संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक को समान वोट का अधिकार होता है।
- [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद](#): [सुरक्षा परषिद](#) में 15 सदस्य होते हैं।
 - पाँच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और दस अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लयि चुने जाते हैं।
 - भारत आठ बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद का अस्थायी सदस्य रह चुका है।


- **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद: ECOSOC** में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित 54 सदस्य शामिल होते हैं।
 - यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सफ़ारिशों के लिये प्रमुख निकाय है।
- **ट्रस्टीशिप काउंसिल:** संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक, इसकी स्थापना ट्रस्ट क़्षेत्रों के प्रशासन की नगरानी के लिये की गई थी, क्योंकि वे उपनिवेशों से संप्रभु राष्ट्रों में परिवर्तित हो रहे थे।
- **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय: ICJ** एकमात्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के बीच विवादों का नपिटारा करता है।
 - **न्यायालय दो प्रकार के मामलों पर नरिणय दे सकता है: "वविदासपद मामले"** राज्यों के बीच कानूनी विवाद होते हैं और **"सलाहकार कार्यावाही"** संयुक्त राष्ट्र के अंगों और कुछ वशिष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय के लिये अनुरोध होते हैं।
- **सचवालय:** महासचवि की नयुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सफ़ारिश के आधार पर की जाती है और वह संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

नोट:

- संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से पांच अर्थात् UNGA, UNSC, ECOSOC, ट्रस्टीशिप काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र सचवालय **न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थित हैं।**
 - हालाँकि, **ICJ नीदरलैंड के हेग में स्थित है।**

//

Organs of the United Nations



संयुक्त राष्ट्र से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **शक्ति संरक्षण:** संयुक्त राष्ट्र को धनी और वकिसशील देशों के बीच शक्ति असंतुलन से जूझना पड़ रहा है, जिससे उसके लक्ष्यों को क्रियान्वित करना कठिन हो रहा है। ये संरक्षण संगठन की नषिपक्ष रूप से कार्य करने और वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की क्षमता को चुनौती देते हैं।
- **सुरक्षा और आतंकवाद:** संयुक्त राष्ट्र **आतंकवाद** और वैचारिक संघर्षों सहित उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। पारंपरिक खतरों को संबोधित करते हुए, इसे मानव सुरक्षा, **गरीबी** और बीमारी जैसे व्यापक मुद्दों से भी नपिटना होगा, संघर्ष की रोकथाम और वैश्विक सुरक्षा में अपनी भूमिका का वसितार करना होगा।
- **शांति स्थापना:** आधुनिक **शांति स्थापना** को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वशिषकर आंतरिक संघर्षों में जहां लड़ाके अक्सर संयुक्त राष्ट्र की तटस्थता की उपेक्षा करते हैं। चुनौती संघर्ष क़्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए तेजी से तैनात करने योग्य टीमों का उपयोग करते हुए, पारंपरिक शांति स्थापना से शांतिपालन में संक्रमण में नहित है।
- **मानवाधिकार चुनौतियाँ:** संयुक्त राष्ट्र को वशिष रूप से संघर्ष के बाद के देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना और सुदृढीकरण की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह सुनिश्चित करना कि ये प्रणालियाँ अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करें, वैश्विक स्तर पर **मानवाधिकारों** के दीर्घकालिक संरक्षण और संवर्द्धन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

Q. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC) के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न वभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/united-nations-day-2024>

